

## ***IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES UNDER 100 DAYS INTENSIFIED CAMPAIGN FOR TB ELIMINATION AT ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL BIHTA, BIHAR***

To ensure TB free India, an intensified 100 days Campaign for TB Elimination initiated by the Ministry of Health and Family Welfare, has been organised at ESIC Medical College and Hospital Bihta, Bihar under the leadership and supervision of Dr. B. K. Biswash, Dean ESIC Medical College and Hospital Bihta, Bihar. Health talks on TB awareness in this campaign were given by Dr. B. K. Biswash, Dean ESIC Medical College and Hospital Bihta, Bihar, Dr. Selva Kumar Chelliah, Medical Superintendent in-charge, ESIC Medical College and Hospital Bihta, Bihar, Dr. Abhay kumar(Nodal Officer-Clinical, MCCC for NTEP), Dr. Lovely Kumari(Nodal Officer-Public Health, MCCC for NTEP), Dr. Vidyut Prakash, Dr. Mukesh Kumar Modi, Dr. Sujata Kumari, Dr. Pankaj Kumar, Dr. Mukesh Kumar, Dr. Abhigyan. Sri Shailendra Prasad Singh( STS-Bihar Health Department) and Sri Bhagwan Chaudhary(TB Service Provider-Bihar Health Department) have also shared about the facilities provided under NTEP. IEC materials were displayed. Some glimpses of this campaign are here.





संस्कृत विश्वविद्यालय  
संस्कृत विश्वविद्यालय  
संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत विश्वविद्यालय  
संस्कृत विश्वविद्यालय  
संस्कृत विश्वविद्यालय

टीसी और टीकएन में टाकी अड्डाणी  
कमरु टाकी विज्ञानशाला

































# IEC Materials



कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना- 801103

( जल एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार )

फोन नं- 8344429148, ईमेल- ms-bihara.bh@esic.nic.in



100 दिवसीय TB उन्मूलन सघन अभियान

दिनांक 07 दिसम्बर से प्रारंभ

जल-जल का एखे ध्यान, TB-मुक्त भारत अभियान

जल-जल का एखे ध्यान, TB-मुक्त भारत अभियान

ना शर्माना, ना घबराना,  
टीबी की जांच करवाना

जांच, दवा और पोष्टिक आहार  
टीबी पर करेगा अंतिम प्रहार



टीबी को सिर्फ इलाज से नहीं,  
वचाव से भी हराना है

पोष्टिक आहार ही टीबी के खिलाफ  
सबसे ज़रूरी हथियार है

जीवना विद्या संस्थान से प्रारंभ

नि:शुल्क संपर्क हेल्पलाइन:  
1800-11-6666 (टोल-फ्री)

जल एवं रोजगार मंत्रालय  
भारत सरकार



कर्मचारी राज्य  
बीमा निगम



104 अधिक जानकारी के लिए  
हेल्पलाइन पर संपर्क करें



कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मिट्टा, पटना- 801103

( भ्रम एवं रोजगार बंचालय, भारत सरकार )

फोन नं- 8544429148, ईमेल- ms-bhra.bh@sevic.nic.in



100 दिवसीय TB उन्मूलन सघन अभियान

दिनांक 07 दिसम्बर से प्रारंभ

# टीबी को रोकने में होगी आसानी अगर रखें ये सावधानी



खाँसते और छींकते  
समय मुँह पर हाथ  
रखें



झुले में कहीं भी ना थूकें



साफ़ सफ़ाई का  
ध्यान दें

जब-जब का लगे लक्षण,  
TB-सुरा भारत अभियान

सिखाएँ  
सत्य

- 1. TB का लक्षण पहचानें।
- 2. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 3. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 4. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 5. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 6. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 7. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 8. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 9. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- 10. TB का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

नि:शुल्क संपर्क हेल्पलाइन:  
1800-11-6666 (टोल-फ्री)

भ्रम एवं रोजगार बंचालय  
भारत सरकार

कर्मचारी राज्य  
बीमा निगम

105 अधिक जानकारी के लिए  
सिखाएँ सत्य पर संपर्क करें



कर्मचारी राज्य बीमा निगम विक्रिसा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा, पटना- 801103

( 800 एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार )

फोन नं-854442-148, ईमेल-ms-bhha.bh@esic.nic.in



100 दिवसीय TB उन्मूलन सघन अभियान

दिनांक 07 दिसम्बर से प्रारंभ

जन-जन का स्वर्ण ध्यान, TB-मुक्त भारत अभियान

जन-जन का स्वर्ण ध्यान, TB-मुक्त भारत अभियान

सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण नहीं

जिनको टीबी का हो ज्यादा खतरा अधिक जांच का पकड़े जरूरी

TB के और भी लक्षण हो सकते हैं

अगर आप इनमें से एक है तो, आपको बिना इलाज के ही TB हो सकती है

कमजोर वाली खांसी



कमजोर में धुल आना

सूखार



कफाल

उभरे में पेट



इन्हें नज़रअंदाज़ ना करें



पराजी बीमारी

उभरे के बिना भी उभरे में पेट होना



उभरे में पेशाब आना

उभरे में टूट सांसें होना



उभरे में निरास



पिपिले व बर्न में क्लिब टीबी हुआ हो



टीबी क्लिब क्लिब हुआ हो



पुलमोन और लिवर का बीमारी क्लिब क्लिब हुआ हो



कफाल टीबी



कफाल टीबी



कफाल टीबी

जीवन बिना... क्लिब हो क्लिब

तुरंत TB की जांच करवाएं

नि.स्वय संपर्क हेल्पलाइन: 1800-11-6666 (टोल-फ्री)

अम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

104 अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें

